

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 716]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 नवम्बर 2024 — कार्तिक 27, शक 1946

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2024

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-35/2019/वा.क.(आब.)/पांच(89).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ग) तथा धारा 62 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खण्ड (च), (छ), (ज) एवं सहपठित उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोलासिस नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में, —

नियम 14 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(2क) उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि परिवहन वाहन के अतिरिक्त किसी अन्य रीति/पद्धति/पाईप लाईन इत्यादि से परिवहन किया जाना है, तो मोलासिस की मात्रा 25 मीट्रिक टन या उससे कम मात्रा पर रुपये 200/- प्रति परिवहन, परिवहन शुल्क के रूप में जमा करने पर, परिवहन अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगा। उक्त परिवहन अनुज्ञापत्र, विहित प्ररूप एम-7 में जारी किया जायेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 10-35/2019/वा.क.(आब.)/पांच(89).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-11-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 11th November 2024

NOTIFICATION

No. F 10-35/2019/C.T.(Ex.)/V(89).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 8, sub-section (1) and clause (f), (g), (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Molasses Control and Regulation Rules, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After sub-rule (2) of rule 14, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

- “(2A) On receipt of an application under sub-rule (1), if the transportation is to be made by any other mode/method /pipeline etc. other than vehicle, a transport permit may be issued after payment of transport fees of Rs. 200/- per transportation of 25 metric tons or less quantity of molasses. The above transport permit shall be issued in the prescribed format – M-7.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.